



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2012/अग्रहायण 1, 1934

No. 261]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012/AGRAHAYANA 1, 1934

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय]

संकल्प

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

सं. 1/27/2011/डीसीएच/समन्वय.—भारत सरकार के दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, 27 जुलाई, 2012 और 24 अगस्त, 2012 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में डॉ. राजेन्द्र आर. सिंह, 4, बासवानी मैशंस, 120, दिग्शा वाचा रोड, चर्च गेट, मुम्बई-400020 को दिनांक 5 नवम्बर, 2012 से अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

2. बोर्ड के उपर्युक्त नव नियुक्त अवैतनिक उपाध्यक्ष हथकरघा क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को सलाह देंगे। उपर्युक्त उपाध्यक्ष का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के समवर्ती अर्थात् 22-12-2011 से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. यह बोर्ड सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हथकरघा क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को सलाह देगा। यह बोर्ड विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को सलाह देगा :—

- (i) देश की कपड़े की आवश्यकता को अधिकाधिक हथकरघा क्षेत्र से पूरा करना;
- (ii) बुनकरों में बेरोजगार और अल्परोजगार को कम करने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए हथकरघा क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाना;
- (iii) हथकरघा की शिल्प परम्परा को बनाए रखना और इसे अधिक बढ़ावा देना;
- (iv) देश और विदेशों में हथकरघा वस्त्रों के विपणन में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना बनाना;
- (v) इस क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के विकासात्मक प्रयत्नों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाना; और
- (vi) विकास में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना।

इसे माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मोनिका एस. गर्ग, संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd November, 2012

No. 1/27/2011/DCH/Coordn.—In continuation of Government of India's Resolution of even number dated 22nd December, 2011, 27th July, 2012 and 24th August, 2012, Dr. Rajendra R. Singh, 4, Vaswani Mansions, 120, Dinshaw Vacha Road, Churchgate, Mumbai-400020 is appointed as Vice-Chairman in the All India Handloom Board w.e.f. 5th November, 2012.

2. The above newly appointed Honorary Vice-Chairman of the Board would advise the Government in the formulation of overall development programme in the handloom sector. The Term of the Office of the above Vice-Chairman will be concurrent with the term of the Board, i.e., a period of two years from 22-12-2011.

3. The Board will advise the Government in formulation of the overall development programme in the handloom sector keeping in view socio-economic, cultural and artistic perspective. In particular, the Board will advise the Government regarding achievement of the following objective :—

- (i) to meet the clothing needs of the country progressively from the handloom sector;
- (ii) to make handlooms an effective instrument of reducing unemployment and under-employment and achieving higher standard of living for weavers;
- (iii) to preserve and further promote the craft heritage of our handlooms;
- (iv) to devise strategies for expanding markets for handlooms within the country and abroad;
- (v) to take steps for effective co-ordination of the developmental efforts of the various State Governments/ Union Territories in this sector; and
- (vi) to review the progress of development from time to time.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Textiles.

MONIKA S. GARG, Jt. Secy. and Development Commissioner (Handlooms)